

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
 प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 6, 2001 (पौष 16, 1922)
 No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 6, 2001 (PAUSA 16, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
 संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
 Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices
 of the Government of India]

वित्त मंत्रालय
 आर्थिक कार्य विभाग
 बैंक नोट मुद्रणालय

देवास (म. प्र.)-455001, दिनांक 16 दिसम्बर 2000

सं. बीएनपी/सी/44/98--नस्ती क्रमांक बीएनपी/सी/44/98 श्री कृष्ण कुमार, उप कार्य अभियंता श्रेणी-1 (वातानुकूलन) को बैंक नोट मुद्रणालय, देवास (म.प्र.) में सहायक अभियंता (वातानुकूलन) के पद के वेतनमान रु. 6500-200-10500 (समूह-ख राजपत्रित) पर दिनांक 19-11-2000 से 31-3-2001 तक तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

एम. डी. सिंह
 महाप्रबन्धक

प्रतिभूति कागज कारखाना

होशंगाबाद (म.प्र.)-461005, दिनांक 30 नवम्बर 2000

शुद्धिपत्र

क्र. सं. 7(103)/7833--वर्ग "ख" कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के अनुसार विज्ञप्ति क्रमांक 7(103)/5705

दिनांक 26-09-2000 के कालम 4 में निम्न संशोधन करने का आदेश दिया जाता है।

कालम नं. 4 वर्तमान प्रविष्टि 21-09-2000 के स्थान पर 10-03-2000 पढ़ा जावे।

गुरमीत सिंह
 उप महाप्रबन्धक एवं विभागाध्यक्ष

रक्षा लेखा विभाग
 कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली-110066, दिनांक 6 दिसम्बर 2000

सं. प्रशा.-1/1467/51/जी--भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा उनके जन्म की तारीख के नीचे दिखाई गई तारीख को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर रक्षा लेखा विभाग के संख्याबल से हटा दिया गया है और तदनुसार प्रत्येक के समक्ष दिखाई गई तारीख को पेंशन स्थापना के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है।

क्र. नाम सं	जन्म की तारीख सेवानिवृत्ति की तारीख	पेंशन स्थापना को स्थानांतरित किए जाने की तारीख
सर्व/श्री		
1. बी. डी. सिंह	01-12-1940 30-11-2000	01-12-2000
2. अमर चन्द	12-11-1940 30-11-2000	01-12-2000
3. डी. कृष्णामूर्ति	01-12-1940 30-11-2000	01-12-2000
4. नन्द कुमार	12-11-1940 30-11-2000	01-12-2000
5. एल. पी. चौरसिया	01-12-1940 30-11-2000	01-12-2000

नीता कपूर
रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक (प्रशा.)

खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2000

सं. ए. 19011/569/2000-स्थापना. ए.--आम्बेडकर प्रतिष्ठान सामाजिक, न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के निदेशक के पद की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से परिपक्वता पूर्व प्रत्यावर्तन होने पर श्री एम. पी. जानसन ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली से जारी दि. 7-9-2000 के आदेश सं. 12015/2/2000-भारतीय सांख्यिकी सेवा के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो में उप खनिज अर्थशास्त्री (सां) के पद पर दि. 16-10-2000 (पूर्वाह्न) को कार्यग्रहण कर लिया है।

के. के. साहू
प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

एन.एच.-4, फरीदाबाद, दिनांक 8 दिसम्बर 2000

सं. ए.-19025/35/2000-प्र.-1--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर श्री के. गणेशन को 6500-200-10500 रं. के वेतनमान में

विपणन अधिकारी (ग्रुप-1) के पद पर विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, उप कार्यालय तिरुपुर (तमिलनाडु) में दिनांक 16-11-2000 (पूर्वाह्न) से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया है।

डी. के. बजाज
निदेशक (प्रशासन)

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400 001, दिनांक 6 दिसम्बर 2000

सं. पऊआ-1(1) 2 के--इस विभाग के दिनांक 9 अगस्त 2000 की अधिसूचना संख्या पऊआ-1(1)2 के में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति, एतद्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग (पऊआ) में दिनांक 01 नवम्बर 2000 से निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:-

1. श्री टी. आर. प्रसाद, - परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य के
मंत्रिमंडल सचिव रूप में
2. श्री अजित कुमार, - परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य (वित्त)
वित्त सचिव तथा तथा भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग
सचिव, आर्थिक मामलों में वित्तीय मामलों के पदेन सचिव के रूप
विभाग, वित्त मंत्रालय में

के. मुरलीधर
सचिव, परमाणु ऊर्जा आयोग

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500 016, दिनांक 29 नवम्बर 2000

सं. ए.एम.डी.-4/2/2000-भर्ती--भारत के राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई के परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों को उनके नाम के सामने वर्णित तारीख से आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में प्रत्येक के नाम के सम्मुख लिखे ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं।

क्र. अधिकारी का सं. नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति का ग्रेड	स्थायी भारत पद	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
----------------------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------

(सर्व श्री/डा.)

1. आर. श्रीहरी वै.अ/जी वै.अ/एच वै.अ/एस.सी 1-8-2000
2. आर. धनराज वै.अ/जी वै.अ/एच वै.अ/एस.सी 1-8-2000
3. मीर आजम अलि वै.अ/जी वै.अ/एच वै.अ/एस.सी 14-8-2000

देवेश चंद्र बनर्जी
निदेशक

भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 4 दिसम्बर 2000

सं. भापाबो/भ/1/2(37)/2000/1037-राष्ट्रपति, भारी पानी संयंत्रों के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 1 अगस्त 2000 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय/संयंत्र में नीचे कालम 4 में उल्लिखित पदों पर अस्थायी रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

क्रम सं	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति पर ग्रेड	संयंत्र
1	2	3	4	5
	सर्व/श्री			
1.	सुरेन्द्र चन्द्र गुप्ता	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	वैज्ञा. अधिकारी/जी	भापाबो (केन्द्रीय कार्यालय)
2.	सुमेरचन्द्र गुलाबचन्द बेलोकर	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	वैज्ञा. अधिकारी/जी	भापाबो (केन्द्रीय कार्यालय)
3.	भरतुल्ला प्रहलाद	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	वैज्ञा. अधिकारी/जी	भापासं (मणुगूर)
4.	अशोक सिन्हा	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	वैज्ञा. अधिकारी/जी	भापासं (मणुगूर)
5.	चावली शेपा साई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	वैज्ञा. अधिकारी/जी	भापासं (मणुगूर)
6.	कोवड्डा विश्वनाथ	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	वैज्ञा. अधिकारी/जी	भापासं (कोट)
7.	गिरीश कुमार विठ्ठल	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	वैज्ञा. अधिकारी/जी	भापासं (कोट)
8.	त्रिभुवन नाथ यादव	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (कोट)
9.	कृष्ण कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापाबो (केन्द्रीय कार्यालय)
10.	गोविंदभाई मणिलाल शाह	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (बडौदा)
11.	नरेंद्र कुमार गौड़	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (बडौदा)
12.	गोरधनभाई झाडूभाई नासित	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (बडौदा)
13.	पारप्पाडियिल एलेक्जेंडर ओम्मेन वैथ्यन	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (तृतीकोरिन)
14.	कांजूरुण एन्टोनी ऑगस्टिन	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (तृतीकोरिन)
15.	वैकिटेश्वरन् सुब्रमोणियन पोर्टी	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (तृतीकोरिन)
16.	बालकृष्णन रेगासुब्बु	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (तृतीकोरिन)
17.	गोविंदराजा राव सत्यनारायणन	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (तृतीकोरिन)
18.	बन्दारु सत्यनारायणा स्वामी	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (मणुगूर)
19.	दासिगी वैकटेश्वरलू	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (मणुगूर)
20.	रिजु भटनागर	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (मणुगूर)
21.	संजीला वरा प्रसादा राव	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (मणुगूर)
22.	अरुण बोस	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (मणुगूर)
23.	महेन्द्र कुमार गिरी	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (मणुगूर)
24.	एलबन कुमार मल्लिक	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (मणुगूर)
25.	गुणामल्ली रामानुजम	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (मणुगूर)
26.	रंजन कुमार साहा राय	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (थल)
27.	नरेन्द्र सिंह	वैज्ञा. अधिकारी/ई	वैज्ञा. अधिकारी/एफ	भापासं (हजीरा)

उपरोक्त अधिकारियों ने दिनांक 1 अगस्त 2000 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में कालम सं. 3 में उल्लिखित अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

वेतनमान

1.	वैज्ञा. अधिकारी /अभियंता ग्रेड /जी	16400-450-20000
2.	वैज्ञा. अधिकारी /अभियंता ग्रेड /एफ	14300-400-18300

सी. जी. सुकुमारन
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

मुम्बई-400094, दिनांक 15 दिसम्बर 2000

सं. भापाबो/भ/2/1(31)/2000/1119--भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई की सहायक लेखाकार श्रीमती लक्ष्मी रामनाथ को दिनांक 4 अक्टूबर 2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक रु. 6500-200-10500 के वेतनमान में भारी पानी संयंत्र (कोय) में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

एन. पी. गणेशन
प्रशासन अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500 062, दिनांक 4 दिसम्बर 2000

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/ईसी-0128/1161--नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के वैज्ञानिक अधिकारी/डी (वेतनमान रु. 10000-325-15200) श्री एन. एम. सराफ ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30-11-2000 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

टी. वाई. प्रहलाद राव
प्रशासनिक अधिकारी

नागर विमानन महानिदेशालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 23 नवम्बर 2000

सं. ए. 12025/2/96-स्था. 1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रत्येक के सामने दिखाई गई तारीख से तथा अगले आदेश होने तक रु. 8000-275-13500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री मनोज कुमार साहू	22-11-2000 (पूर्वा.)
2.	श्री टी. आर. हरिकुमार	17-11-2000 (पूर्वा.)

एच. एस. सन्धु
उपनिदेशक, प्रशासन
कृते महानिदेशक, नागर विमानन

विधि मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मै. सिम्पिलसिटी क्रैनस
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 दिसम्बर 2000

सं. 560/3/10476/581--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अन्तराल पर मै. सिम्पिलसिटी क्रैनस प्राइवेट लिमिटेड

का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मै. आईड्रो जे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 दिसम्बर 2000

सं. 560/3/71675/556--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अन्तराल पर मै. आईड्रो जे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मै. बन्सल अपार्टमेंट्स एण्ड लीजफिन
(इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 दिसम्बर 2000

सं. 560/3/77198/557--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अन्तराल पर मै. बन्सल अपार्टमेंट्स एण्ड लीजफिन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मै. के. एल. राना एसोशिएट्स प्राइवेट
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 दिसम्बर 2000

सं. 560/3/11283/559--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अन्तराल पर मै. के. एल. राना एसोशिएट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै. बीहाइव मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 दिसम्बर 2000

सं. 560/3/38968/596---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अन्तराल पर मैं, बी.हाइब.मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 दिसम्बर 2000

सं. 560/3/53319/593--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अन्तराल पर मै. मैक्सटन ग्लास टाईल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै. संदेश एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मई दिल्ली-110003, दिनांक 18 दिसम्बर 2000

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै. एच. ए. चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

सं. 560/3/92840/597--कम्पनी अधिनियम 1936 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अन्तराल पर मैं, संदेश एक्स्चेंज लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

वाई दिल्ली-110003, दिनांक 18 दिसम्बर 2000

सं. 360/3/34275/594—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अन्तराल पर मै. एच. ए. चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
तप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा.

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै. एम. एन. बी. एयर स्पेयर्स एण्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 दिसम्बर 2000

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै. स्काईलाइन कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

सं. 560/3/26528/598--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार मैं एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अन्तराल पर मै. एम. एन. बी. एयर स्पेयर एण्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 दिसम्बर 2000

सं. 560/3/80507/595--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अन्तराल पर मै. स्काईलाइन कम्पनिकेशन्स प्राइवेट

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स विजन वर्ल्डट्रोनिक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 दिसम्बर 2000

सं. 560/3/42680/791--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 3 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विजन वर्ल्डट्रोनिक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै. होरीजन पेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 दिसम्बर 2000

सं. 560/3/16496/792--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अन्तराल पर मै. होरीजन पेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै. गोरी चिट फन्ड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 दिसम्बर 2000

सं. 560/5/55-15198/9707--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. गोरी चिट फन्ड प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

आर. के. झालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै. भगवान चिट एन्ड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 दिसम्बर 2000

सं. 560/5/11573/9716--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. भगवान चिट एन्ड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

आर. के. झालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै. सुमती इन्टरप्राइजेज लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 8 दिसम्बर 2000

सं. 560/3/एल. सी./2550--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आज की तारीख से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मै. सुमती इन्टरप्राइजेज लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. कानपुर

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै. जे. आई. ए. फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 8 दिसम्बर 2000

सं. 560/3/एल. सी. --कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अन्तराल पर मै. जे. आई. ए. फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण नहीं है तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. कानपुर

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै. भगवती बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 8 दिसम्बर 2000

सं. 560/3/एल. सी. --कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मै. भगवती बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. कानपुर

कानपुर-208001, दिनांक 8 दिसम्बर 2000

सं. 560/5/विधि अनुभाग --कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि

निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है:--

क्र. सं. कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1. 13428	गौटीवाला जिप्स इंडिया प्रा. लिमिटेड
2. 12928	गैरव फ्यूल्स प्रा. लिमिटेड
3. 7823	सनवारिया इग्ज एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
4. 8844	इयनमिक रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
5. 13246	आर. बी. एम. हैडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
6. 9175	सूर्या ऊल्स (प्रा.) लिमिटेड
7. 11880	गांधी धिट फण्ड प्रा. लिमिटेड
8. 8723	परसरामपुरिया मेटालाइसिंग लिमिटेड
9. 6893	कुबेर इस्पात (प्रा.) लिमिटेड

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. कानपुर

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै. लिन्कबेस प्लान्टेशन्स इंडिया लिमिटेड के विषय में ।

कानपुर-208001, दिनांक 8 दिसम्बर 2000

सं. 560/3/एल. सी./2589 --कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मै. लिन्कबेस प्लान्टेशन्स इंडिया लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. कानपुर

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मै. सागर एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कानपुर-208001, दिनांक 8 दिसम्बर 2000

सं. 560/3/एल. सी./2590 --कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मै. सागर एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. कानपुर

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मै. तनु इन्टरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड के विषय में ।

कानपुर-208001, दिनांक 8 दिसम्बर 2000

सं. 560/3/एल. सी./2608 --कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि

से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मै. तनु इन्टरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. कानपुर

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मै. वी. एस. एस. एग्रो प्लान्टेशन्स लिमिटेड के विषय में ।

कानपुर-208001, दिनांक 8 दिसम्बर 2000

सं. 560/3/एल. सी./2610 --कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मै. वी. एस. एस. एग्रो प्लान्टेशन्स लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. कानपुर

कानपुर-208001, दिनांक 21 दिसम्बर 2000

सं. 560/5/विधि अनुभाग/2616 --कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है:--

क्र. सं. कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1. 19633	श्री आनन्देश्वर काटस्पिन मिल्स प्रा. लि.
2. 9542	मदन इन्स्टैंट फूड्स एण्ड ड्रिंक्स (प्रा.) लि.
3. 7231	भृगु इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि.
4. 7794	मनोहर ग्लास सेल्स लिमिटेड
5. 8261	सिटी केमीकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि.
6. 21317	कुमुद आटो प्रा. लिमिटेड
7. 18433	डी. के. डाइग्नोस्टिक एण्ड एलाइड सर्विसेस प्रा. लि.
8. 12558	डेल्टा फोमस प्राइवेट लिमिटेड

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. कानपुर

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मै. स्टार सिटी म्यूचुअल बेंनीफिट (इंडिया) लिमिटेड के विषय में ।

कानपुर-208001, दिनांक 8 दिसम्बर 2000

सं. 560/3/एल. सी./2612 --कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि

सं. 560(3)/एल.सी./2694--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स विबग्योर प्लास्टिक प्राइवेट

लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

(डी. आर. चतुर्वेदी)
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार, उ. प्र.
कानपुर

कंपनी अधिनियम 1956 और मैसर्स मैट्रो एसासरीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-1, दिनांक 11 दिसम्बर 2000

सं. 560(3)/एल.सी./2696--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मैट्रो एसासरीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

(डी. आर. चतुर्वेदी)
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार, उ. प्र.
कानपुर

कंपनी अधिनियम 1956 और मैसर्स वी. एस. जी. बिट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-1, दिनांक 12 दिसम्बर 2000

सं. 560(3)/एल.सी./2698--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स वी. एस. जी. बिट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

(डी. आर. चतुर्वेदी)
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार, उ. प्र.
कानपुर

कंपनी अधिनियम 1956 और मैसर्स रतनदीप स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-1, दिनांक 12 दिसम्बर 2000

सं. 560(3)/एल.सी./2700--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स रतनदीप स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

(डी. आर. चतुर्वेदी)
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार, उ. प्र.
कानपुर

कंपनी अधिनियम 1956 और मैसर्स परनामी एग्रो लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-1, दिनांक 12 दिसम्बर 2000

सं. 560(3)/एल.सी./2702--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स परनामी एग्रो लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

(डी. आर. चतुर्वेदी)
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार, उ. प्र.
कानपुर

कंपनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एस. एन. रस्तोगी ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-1, दिनांक 12 दिसम्बर 2000

सं. 560(3)/एल.सी./2704--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एस. एन. रस्तोगी ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

(डी. आर. चतुर्वेदी)
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार, उ. प्र.
कानपुर

कंपनी अधिनियम 1956 और मैसर्स राधसन्स लाटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 12 दिसम्बर 2000

सं. आर.ओ.सी.पी./एफ.एस.टी./560/44/6559--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राधसन्स लाटेक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

(के. व्ही. गौतम)
कम्पनी रजिस्ट्रार,
पुणे

कंपनी अधिनियम 1956 और मैसर्स श्रुबानी बायोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 12 दिसम्बर 2000

सं. आर.ओ.सी.पी./560/73/2000/6661--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि एक सप्ताह के अवसान पर मैसर्स श्रुबानी बायोसिस्टम प्राइवेट

लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

(के. वी. गौतम)
कम्पनी रजिस्ट्रार,
पुणे

कंपनी अधिनियम 1956 और मैसर्स इंडियन मंच शेअर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 12 दिसम्बर 2000

सं. आर.ओ.सी.पी./560/42/74/2000/6663--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि एक सप्ताह के अवसान पर मैसर्स इंडियन मंच शेअर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

(के. वी. गौतम)
कम्पनी रजिस्ट्रार,
पुणे

कंपनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सिद्धेश्वर डायगोनिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 12 दिसम्बर 2000

सं. आर.ओ.सी.पी./560/43/75/2000/6665--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि एक सप्ताह के अवसान पर मैसर्स सिद्धेश्वर डायगोनिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

(के. वी. गौतम)
कम्पनी रजिस्ट्रार,
पुणे

कंपनी अधिनियम 1956 और मैसर्स जितन दत्ता सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 12 दिसम्बर 2000

सं. आर.ओ.सी.पी./560/44/74/2000/6667--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि एक सप्ताह के अवसान पर मैसर्स जितन दत्ता सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

(के. वी. गौतम)
कम्पनी रजिस्ट्रार,
पुणे

कंपनी अधिनियम 1956 और मैसर्स वज्रेश्वरी सिरमिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 12 दिसम्बर 2000

सं. आर.ओ.सी.पी./560/45/77/2000/6668--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि एक सप्ताह के अवसान पर मैसर्स वज्रेश्वरी सिरमिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

(के. वी. गौतम)
कम्पनी रजिस्ट्रार,
पुणे

कंपनी अधिनियम 1956 और मैसर्स गोकर्ण शुगरकेन प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 12 दिसम्बर 2000

सं. आर.ओ.सी.पी./560/46/78/2000/6671--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि एक सप्ताह के अवसान पर मैसर्स गोकर्ण शुगरकेन प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

(के. वी. गौतम)
कम्पनी रजिस्ट्रार,
पुणे

कंपनी अधिनियम 1956 और मैसर्स थरमरी अग्रो प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पुणे-411004, दिनांक 12 दिसम्बर 2000

सं. आर.ओ.सी.पी./560/47/78/2000/6673--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि एक सप्ताह के अवसान पर मैसर्स थरमरी अग्रो प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

(के. वी. गौतम)
कम्पनी रजिस्ट्रार,
पुणे

कंपनी अधिनियम 1956 के मामले में और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अधीन फास्ट ट्रेक स्कीम के अन्तर्गत लागू मैसर्स फ्रीडम आटो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बी-वाय-2, साखरदान्डे एपार्टमेंट, फादर एग्नेलो रोड, पनजी-गोवा-403001।

पनजी-गोवा, दिनांक 15 दिसम्बर 2000

सं.24-02462/560(5)/6002--अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है

कि मैसर्स फ्रीडम आये सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. अहमद कुन्जु
कम्पनी रजिस्ट्रार,
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम 1956 के मामले में और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अधीन फास्ट ट्रेक स्कीम के अन्तर्गत लागू मैसर्स पटेल अप्लायसेंस लिमिटेड प्लोट नं. एल-9, कुंकलीम इंडस्ट्रीयल इस्टेट सालसेट, गोवा-403703

पणजी-गोवा, दिनांक 19 दिसम्बर 2000

सं. 24-01882/यूएस 560/1/6030--भारत सरकार, विभाग कम्पनी मामले के दिनांक 20-09-2000 के पत्र संख्या 1-5-2000-सीएल, V परिपत्र संख्या 10/2000 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम की धारा 560 के अनुपालन में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति अधिकारी आदि को उपरोक्त आवेदन से कोई शिकायत हो तो वे अपनी शिकायतें लिखित रूप में एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को भेज सकते हैं।

मैसर्स पटेल अप्लायसेंस लिमिटेड जब तक इसके विपरीत कारण नहीं दिखा देते हैं तब तक रजिस्टर से उनका नाम कटा रहेगा और कथित कम्पनी अस्तित्व में नहीं मानी जाएगी।

एम. अहमद कुन्जु
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम 1956 के मामले में और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अधीन फास्ट ट्रेक स्कीम के अन्तर्गत लागू मैसर्स जकाना टूरिस्ट एण्ड कन्सर्वेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, एस. एफ.-5, सुकरकर मानशन सरकारी प्रिटींग प्रेस के सामने

पणजी-गोवा-4030011, दिनांक 19 दिसम्बर 2000

सं. 24-01903/यूएस 560/1/6031--भारत सरकार, विभाग कम्पनी मामले के दिनांक 20-09-2000 के पत्र संख्या 1-5-2000-सीएल, V परिपत्र संख्या 10/2000 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम की धारा 560 के अनुपालन में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति, अधिकारी आदि को उपरोक्त आवेदन से कोई शिकायत हो तो वे अपनी शिकायतें लिखित रूप में एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को भेज सकते हैं।

मैसर्स जकाना टूरिस्ट एण्ड कन्सर्वेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड जब तक इसके विपरीत कारण नहीं दिखा देते हैं तब तक रजिस्टर से उनका नाम कटा रहेगा और कथित कम्पनी अस्तित्व में नहीं मानी जाएगी।

एम. अहमद कुन्जु
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव,

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अंतर्गत जल्द मार्ग निर्देश योजना के आवेदन पत्र के सम्बन्ध में। मैसर्स, अलाईड इन्टरमोडियट्स और रेज़िन्स प्राइवेट लिमिटेड

अहमदाबाद-380009, दिनांक 22 नवम्बर 2000

सं. आरओसी/3457/एसटीए/560/2000--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या 1-5-2000 सी.एल.वी. दिनांक 20-09-2000 के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढा। इस सम्बन्ध में यह आवेदनपत्र के लिए कोई व्यक्ति, प्राधिकृत आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करें।

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स अलाईड इन्टरमोडियट्स और रेज़िन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम 1956 और फ्लोरा एण्ड फौना इन्डग्रेटेड मेडिसिन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

केरला, दिनांक 1 दिसम्बर 2000

सं. 09-5990/560(3)/लिक/8002/2000--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन दिन के अवसान पर प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो कम्पनी का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

एस. एम. अमीरुल मिल्लत
कम्पनी रजिस्ट्रार, केरल

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोच्चि-682 011, दिनांक 19 दिसम्बर 2000

सं. /560(3)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इस तारीख से तीन दिन के अवसान पर प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो कम्पनियों के नाम रजिस्टर से काट दिए जायेंगे।

क्र. सं.	र. नं.	कम्पनी का नाम
1.	1976	तलिप्परंपा टान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
2.	2534	तारा एलक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	3562	अडमिरल पोलिमर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
4.	4360	नर्मदा डीलेर्स एमपोरियम प्राइवेट लिमिटेड
5.	4388	डिस्सा जोन एजेंसीस प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं. र. नं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं. र. नं.	कम्पनी का नाम
6.	4389 डिस्सा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	19.	9123 ड्रीम सिटी गार्डन्स इन्वेस्टमेंट एण्ड फिनान्स कम्पनी लिमिटेड
7.	4765 सासुक ट्रेडिंग एन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	20.	9333 मोस्सिफ होम्स प्राइवेट लिमिटेड
8.	4912 होटल पन्थमी प्राइवेट लिमिटेड	21.	9436 टि. टि. टेनेमेन्ट्स एण्ड कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	5630 ए. एण्ड पी. ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	22.	9741 राहुल इंस प्राइवेट लिमिटेड
10.	6099 जुबिली इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	23.	9872 लालाश्री ब्यूगिंग क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
11.	6372 विन्सम एक्सपोर्ट्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	24.	10159 जियोसन ए. प्राइवेट लिमिटेड
12.	6391 सह्याचल प्लान्टिंग्स हेर्बस एण्ड फ्लवेर्स लिमिटेड	25.	10299 ऐडियल क्रॉस एंक्ली प्राइवेट लिमिटेड
13.	6876 सुर्पुरि इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	26.	11177 डीयार ब्युसिनेस क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
14.	6927 वाटरकोल्लि एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	27.	11387 इन्टर स्टेट प्रोपर्टीस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
15.	7197 पारियल सन्स प्राइवेट लिमिटेड	28.	11764 न्यू सूर्या गार्डन फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड
16.	8248 सार स्पैस प्राइवेट लिमिटेड		
17.	8526 भावना इन्जिनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड		एस. एम. अमीरुल मिल्लत कम्पनी रजिस्ट्रार करल
18.	8872 यालेस्वरा पेपर कन्वर्षन्स प्राइवेट लिमिटेड		

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS
BANK NOTE PRESS
Dewas, the 15th December 2000

F. No. BNP/C/44/98.—Shri Krishna Kumar, Deputy Works Engineer Gr.-I (Airconditioning) is appointed as Assistant Engineer (Airconditioning) in the scale of Rs. 6500-200-10500 (Group 'B' Gazetted) in Bank Note Press, Dewas (M.P.) on adhoc basis w.e.f. 19-11-2000 (FN) upto 31-3-2001.

M.D. SINGH
General Manager

SECURITY PAPER MILL
Hoshangabad, the 30th November 2000

CORRIGENDUM

No. 7 (103)/7833.—As per the recommendations of the Group 'B' D.P.C. the following amendment in Column 4 to the notification No. 7 (103)/5705 dated 26-9-2000 is ordered.

Column No. 4, for 21-9-2000 read 10-3-2000.

GURMIT SINGH
Dy. General Manager &
Head of the Department

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
(OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF
DEFENCE ACCOUNTS)

New Delhi-66, the 6th December 2000

No. AN-I/1467/5/I(G).—The under-mentioned officers of the Indian Defence Accounts Service, who have attained the age of superannuation on the date shown below their date of

birth have been struck off the strength of the Defence Accounts Department and accordingly transferred to the Pension Establishment with effect from the dates shown against each :

Sl. No.	Name	Date of Birth/ Date of retirement	Date on which transferred to the Pension Establishment
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	B.D. Singh	01-12-1940/ 30-11-2000	01-12-2000
2.	Amar Chand	12-11-1940/ 30-11-2000	01-12-2000
3.	D. Krishnamurthy	01-12-1940/ 30-11-2000	01-12-2000
4.	Nand Kumar	12-11-1940/ 30-11-2000	01-12-2000
5.	L.P. Chaurasia	01-12-1940/ 30-11-2000	01-12-2000

NITA KAPOOR
Joint Controller General of Defence Accounts
(Administration)

MINISTRY OF MINES
(INDIAN BUREAU OF MINES)
Nagpur, the 4th December 2000

No. A-19011/569/2000-Estt.—On pre-mature reversion from Central deputation from the post of Director, Ambedkar Foundation, Ministry of Social Justice & Empowerment, New Delhi. Shri M.P. Johnson has joined Indian Bureau of Mines as Dy. Mineral Economist(s) w.e.f. 16-10-2000(FN) as per order No. 12015/2/2000-ISS, dated 7-9-2000 issued

by the Ministry of Statistics and Programme Implementation,
New Delhi.

K.K. SAHU
Administrative Officer
for Controller General

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & CO-
OPERATION)
(DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION)

Faridabad, the 8th December 2000

No. A-19025/35/2000-A.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, Shri K. Ganesan has been appointed as Marketing Officer (Group-I) in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500/— on temporary basis in the Directorate of Marketing & Inspection, Sub-office, Tirupur (T.N.) with effect from 16-11-2000 (FN).

D.K. BAZZAZ
Director (Admn.)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 6th December 2000

No. AEC-1(1)2K.—In partial modification to this Department's notification No. AEC-1(1)2K dated August 9, 2000, the President is pleased to make the following appointments to the Atomic Energy Commission (AEC) with effect from November 1, 2000:

1. Shri T.R. Prasad, Cabinet Secretary, as a Member of the Atomic Energy Commission.
2. Shri Ajit Kumar, Finance Secretary and Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance as the Member for Finance, Atomic Energy Commission, and also ex-officio Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy in financial matters.

K. MURALIDHAR
Secretary to the Atomic Energy Commission

(ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR
EXPLORATION & RESEARCH)

Hyderabad-500 016, the 29th November 2000

No. AMD-4/2/2000-Rectt.—The President is pleased to appoint the undermentioned scientific officers/engineers of the Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research Hyderabad of the Department of Atomic Energy, Mumbai to the grade mentioned against each in the same Directorate in

an officiating capacity on the dates shown against them, until further orders :

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Promotion to Grade	Substantive post held	Date of Assumption of Charge
	Shri/Dr.				
01	R. Sreehari	SO-G	SO-H	SO-SC	01-08-2000
02	R. Dhana Raja	SO-G	SO-H	SO-SC	01-08-2000
03	Mir Azam Ali	SO-G	SO-H	SO-SC	14-08-2000

D.C. BANERJEE
Director

(HEAVY WATER BOARD)

Mumbai-94, the 4th December 2000

No. HWB/R/1/2(37)/2000/1037.—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers of Heavy Water Plants to the posts as indicated in Column 4 below with effect from the forenoon of August 1st, 2000 in the same Office/Plant in a temporary capacity until further orders.

Sr. No.	Name	Present Grade	Promoted to Grade	Unit
1	2	3	4	5
	S/Shri			
01.	Suresh Chandra Gupta	SO/F	SO/G	HWB(Central Office)
02.	Sumerchand Gulabchand Belokar	SO/F	SO/G	HWB(Central Office)
03.	Bharatnula Prahlad	SO/F	SO/G	HWP(Manu-guru)
04.	Ashok Sinha	SO/F	SO/G	HWP(Manu-guru)
05.	Chavali Sessa Sai	SO/F	SO/G	HWP(Manu-guru)
06.	Kowthala Viswanath	SO/F	SO/G	HWP(Kota)
07.	Girish Kumar Vishal	SO/F	SO/G	HWP(Kota)
08.	Trilbhuvan Nath Yadav	SO/E	SO/F	HWP(Kota)
09.	Kuppala Krishnamoorthy Subramanian	SO/E	SO/F	HWB(Central Office)
10.	G. Govindbhai Manilal Shah	SO/E	SO/F	HWP(Baroda)
11.	M. Narendra Kumar Chaur	SO/E	SO/F	HWP(Baroda)

1	2	3	4	5
	S/Shri			
12.	Gordhanbhai Dahyabhai Nasit	SO/E	SO/F	HWP(Earoda)
13.	Parappadiyil Alexander Oommen Vaidhyan	SO/E	SO/F	HWP(Tuticorin)
14.	Kanjookkaran Antony Augustine	SO/E	SO/F	HWP(Tuticorin)
15.	Venkateswaran Subramoniyar Porti	SO/E	SO/F	HWP(Tuticorin)
16.	Balakrishnan Rengasubbu	SO/E	SO/F	HWP(Tuticorin)
17.	Govindaraja Rao Sathyanarayanan	SO/E	SO/F	HWP(Tuticorin)
18.	Bandaru Suryanarayana Swamy	SO/E	SO/F	HWP(Manuguru)
19.	Dasigi Venkateswarlu	SO/E	SO/F	HWP(Manuguru)
20.	Riju Bhatnagar	SO/E	SO/F	HWP(Manuguru)
21.	Vanjila Vara Prasada Rao	SO/E	SO/F	HWP(Manuguru)
22.	Arun Bose	SO/E	SO/F	HWP(Manuguru)
23.	Mahendra Kumar Giri	SO/E	SO/F	HWP(Manuguru)
24.	Plaban Kumar Mallik	SO/E	SO/F	HWP(Manuguru)
25.	Gunapalli Ramanujam	SO/E	SO/F	HWP(Manuguru)
26.	Ranjan Kumar Saha Roy	SO/E	SO/F	HWP(Thal)
27.	Narendra Singh	SO/E	SO/F	HWP(Hazira)

The above Officers relinquished charge of the post held by them as mentioned in the column No. 3 on the forenoon of August 1, 2000.

Scale of pay :—

1. Scientific Officer/Engineer — 16400-450-20000 Grade 'G'
2. Scientific Officer/Engineer — 14300-400-18300 Grade 'F'

C. G. SUKUMARAN
Director (Personnel & Administration)

Mumbai-400 094, the 15th December 2000

Ref : HWB/R/2/1(31)/2000/1119.—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Smt. Laxmi Ramnath, Assistant Accountant, BARC, Mumbai to officiate as Assistant Accounts Officer in Heavy Water Plant (Kota) in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 from the forenoon of 4th October 2000 until further orders.

N. P. GANESAN
Administrative Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 4th December 2000

Ref : NFC/ADM/PEN/EC-0128/1161.—On attaining the age of superannuation, Shri N. M. Saraf, Scientific Officer 'D' (Scale of pay Rs. 10000-325-15200) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad has relinquished the charge of the post with effect from 30-11-2000 (AN).

T. Y. PRAHALAD RAO
Administrative Officer

DTE. GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-3, the 23rd November 2000

No. A-12025/2/96-E-1.—On the basis of recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint the following candidates in the post of Scientific Officer in Civil aviation Department in an Officiating capacity in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the date mentioned against each and until further orders:—

Sl. No.	Name	Date from which appointed
1.	Shri manoj Kumar Sahu	22-11-2000(F/N)
2.	Shri T. R. Harikumar	17-11-2000(F/N)

H. S. SANDHU
Dy. Director of Administration
for Director General of Civil Aviation

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Simplicity Cranes Pvt. Ltd.

New Delhi-110 003, the 18th December 2000

No. 560/10476/534.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Simplicity Cranes Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Aidos Construction Company Pvt. Ltd.

New Delhi-110 003, the 18th December 2000

No. 560/71675/509.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aidos Construction Company Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Bansal Apartments & Lease Fin (India) Pvt. Ltd.

New Delhi-110 003, the 18th December 2000

No. 560/77198/510.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bansal Apartments & Lease Fin (India) Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
K. L. Rana Associates Pvt. Ltd.

New Delhi-110 003, the 18th December 2000

No. 560/11283/511.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. K. L. Rana Associates Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Amrit Bharti Pvt. Ltd.

New Delhi-110 003, the 18th December 2000

No. 560/5787/513.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956

that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Amrit Bharti Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Matai United Engineering Pvt. Ltd.

New Delhi-110 003, the 18th December 2000

No. 560/35044/514.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Matai United Engineering Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Big
Bull Investments & Financial Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110 003, the 18th December 2000

No. 560/48228/515.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Big Bull Investments & Financial Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Ishwar Oil Company Pvt. Ltd.

New Delhi-110 003, the 18th December 2000

No. 560/55104/516.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ishwar Oil Company Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. N.
V. B. Tours & Travels Pvt. Ltd.

New Delhi-110 003, the 18th December 2000

No. 560/76776/517.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. N. V. B. Tours & Travels Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Shubhdham Investment & Financial Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110 003, the 18th December 2000

No. 560/81731/518.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shubhdham Investment & Financial Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Troth Investment & Financial Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110 003, the 18th December 2000

No. 560/76262/519.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Troth Investment & Financial Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Vived Marketing Servicing Company Pvt. Ltd.

New Delhi-110 003, the 18th December 2000

No. 560/75405/520.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956

that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vived Marketing Servicing Company Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Eversound Investment & Financial Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110 003, the 18th December 2000

No. 560/81730/521.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Eversound Investment & Financial Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Knop Trading Company Pvt. Ltd.

New Delhi-110 003, the 18th December 2000

No. 560/81732/522.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Knop Trading Company Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Lucent Softwares Systems Pvt. Ltd.

New Delhi-110 003, the 18th December 2000

No. 560/81733/523.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lucent Softwares Systems Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and
of M/s. Tuff Forge Pvt. Ltd.

New Delhi-1 0003, the 18th December 2000

No. 560/18155/524.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tuff Forge Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and
of M/s. Speciality Resins Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/16497/525.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Speciality Resins Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and
of M/s. Jai Dayal Kapur & Sons Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/1988/526.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jai Dayal Kapur & Sons Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and
of M/s. Kamakhya Marketing Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/29629/527.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date

hereof the name of M/s. Kamakhya Marketing Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and
of M/s. Srejan Films (Pvt.) Limited

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/100341/530.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Srejan Films (Pvt.) Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and
of M/s. Total Info-Tech Systems Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/82623/531.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Total Info-Tech Systems Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and
of M/s. Propel Chits Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/38937/532.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Propel Chits Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and
of M/s. MRS Pipes Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/24436/533.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. MRS Pipes Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and
of M/s. Simplicity Lifts Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/18604/535.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Simplicity Lifts Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Simplicity Airconditioning and Refrigeration Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/14657/536.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Simplicity Airconditioning and Refrigeration Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and
of M/s. Richstake Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/7844/537.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Richstake Pvt. Ltd. unless

cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and
of M/s. Soundic Video Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/27776/538.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Soundic Video Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and
of M/s. Shrida Export Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/61382/539.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shrida Export Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. SCCG Immigration Consultants Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/84994/540.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. SCCG Immigration Consultants Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Marckwel Textiles Pvt. Ltd.

New Delhi 110003, the 18th December 2000

No. 560/24567/542.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Marckwel Textiles Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivam Chit Fund Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/52592/543.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shivam Chit Fund Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nanda Traders Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/39755/544.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nanda Traders Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dewan Power Corporation Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/75602/545.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act,

1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dewan Power Corporation Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maxton Glass Tiles Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/53319/546.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maxton Glass Tiles Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. H.A. Chits Fund Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/34275/547.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. H.A. Chits Fund Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Skyline Communications Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/80507/548.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Skyline Communications Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Beehive Management Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/38968/549.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Beehive Management Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Sandesh Advertising & Marketing Services (P) Ltd

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/92840/550.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sandesh Advertising & Marketing Services (P) Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
M.N.B. Air Spares and Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/26528/551.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. M.N.B. Air Spares and Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
J.A. Coke Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 20th December 2000

No. 560/50835/552.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act,

1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. J.A. Coke Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Bigjos Trading Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/53008/553.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bigjos Trading Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Gateway Travels (India) Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 18th December 2000

No. 560/63221/555.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gateway Travels (India) Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
North West Organics Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/54393/697.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. North West Organics Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Bajrang Chit Fund Company Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/23133/700.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bajrang Chit Fund Company Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Vivek Packaging Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/26760/701.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vivek Packaging Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Berco Exports Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/15093/702.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Berco Exports Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Sherwood Chit Fund Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/44829/703.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act,

1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sherwood Chit Fund Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Qutab Chit Fund Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/22316/704.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Qutab Chit Fund Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Iyer Packagings Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/24915/705.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Iyer Packagings Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Comstar Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/51358/706.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Comstar Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
N.J. Finlease & Invest Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/84820/707.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. N.J. Finlease & Invest Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Kavita Finvest & Leasing Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/84818/708.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kavita Finvest & Leasing Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Rekson Chem Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/89567/709.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rekson Chem Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Aruna Farms and Agro Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/11406/711.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date

hereof the name of M/s. Aruna Farms and Agro Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Kugro Securities and Consultancy Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/74008/712.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kugro Securities and Consultancy Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Bhumeeka Advertising Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/64014/714.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhumeeka Advertising Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Vishnu Engineering Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/15029/715.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vishnu Engineering Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Manmohan Metals Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/21888/716.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Manmohan Metals Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Indu Finvest Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/72115/717.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Indu Finvest Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Su-Raghav Holdings Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/81482/718.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Su-Raghav Holdings Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Vision Wordtronic Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/42680/719.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date

hereof the name of M/s. Vision Wordtronic Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Horizon Paints Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 19th December 2000

No. 560/16496/720.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Horizon Paints Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Gori Chit Fund Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 9th September 2000

No. 37PC/560(5)/15/98/9700.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gori Chit Fund Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Bhagwan Chit and Traders Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 8th December 2000

No. 560 (5)/11573/9716.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhagwan Chit and Traders Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Sumtee Enterprises Ltd.

Kanpur-208 001 the 13th December 2000

No. 560(3)/LC/2550.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sumtee Enterprises Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Jia Finance and Investments Ltd.

Kanpur-208 001, the 13th December 2000

No. 560(3)/LC/2552.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jia Finance and Investments Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhagawati Builders Pvt. Ltd.

Kanpur-208 001, the 18th December 2000

No. 560(3)/LC/2580.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhagawati Builders Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

Kanpur-208 001, the 18th December 2000

No. 560(5)/LC/2582.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following companies has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Company Name
1.	13428	Gotiwala Zips (India) Pvt. Ltd.
2.	12928	Gaurav Fules Private Limited.
3.	7823	Sanwana Drugs & Allied Industries Limited.
4.	8844	Dynamic Roller Floor Mills (P) Ltd.
5.	13246	K.B.M. Handicrafts Exports Pvt. Ltd.
6.	9175	Surya Wools (Pvt.) Limited.
7.	11880	Gandhi Chit Fund Private Limited.
8.	8723	Parasrampur Metallising Limited.
9.	6893	Kuber Ispat (Private) Limited.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Linkbase Plantations India Ltd.

Kanpur-208 001, the 19th December 2000

No. 560(3)/LC/2589.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Linkbase Plantations India Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Sagar Associates Pvt. Ltd.

Kanpur-208 001, the 19th December 2000

No. 560(3)/LC/2590.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sagar Associates Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Tanu Enterprises Pvt. Ltd.

Kanpur-208 001, the 21st December 2000

No. 560/(3)/LC/2608.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tanu Enterprises Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
V. S. S. Agro Plantations Ltd.

Kanpur-208 001, the 21st December 2000

No. 560/(3)/LC/2610.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. V. S. S. Agro Plantations Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

Kanpur-208 001, the 21st December 2000

No. 560(5)/LC/2616.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following companies has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Company Name
1.	19633	Shee Anandeshwar Cotspin Mills Ltd.
2.	9542	Madan Instant Foods & Drinks (P) Ltd.
3.	7231	Bhrigu Electronics Private Limited
4.	7794	Manohar Glass shells Limited
5.	8261	City Chemicals and Allied Products Private Limited
6.	21317	Kumud Autos Private Limited
7.	18433	D. K. Diagnostic & Allied Services Private Limited
8.	12558	Delta Foams Private Limited

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Star City Mutual Benefit (India) Ltd.

Kanpur-208 001, the 21st December 2000

No. 560/(3)/LC/2612.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Star City Mutual Benefit (India) Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Prashad Soft Drinks Pvt. Ltd.

Kanpur-208 001, the 21st December 2000

No. 560/(3)/LC/2614.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Prashad Soft Drinks Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Dass Electronics Pvt. Ltd.

Kanpur-208 001, the 11th December 2000

No. 560/(3)/LC/2643.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dass Electronics Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
S. L. Oberai Special Steels Pvt. Ltd.

Kanpur-208 001, the 11th December 2000

No. 560/(3)/LC/2645.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date

hereof the name of M/s. S. L. Oberai Special Steels Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Doon Valley Sericulture Society Pvt. Ltd.

Kanpur-208 001, the 11th December 2000

No. 560/(3)/LC/2647.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Doon Valley Sericulture Society Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Maunath Bhanjan Spinning Mills Ltd.

Kanpur-208 001, the 11th December 2000

No. 560/(3)/LC/2649.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maunath Bhanjan Spinning Mills Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Akbarpur Spinning Mills Ltd.

Kanpur-208 001, the 11th December 2000

No. 560/(3)/LC/2651.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Akbarpur Spinning Mills Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Vibgyor Plastic Pvt. Ltd.

Kanpur-208 001, the 12th December 2000

No. 560/(3)/LC/2694.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vibgyor Plastic Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Metro Accessories Pvt. Ltd.

Kanpur-208 001, the 12th December 2000

No. 560/(3)/LC/2696.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Metro Accessories Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
V.S.G. Chits Pvt. Ltd.

Kanpur-208 001, the 12th December 2000

No. 560/(3)/LC/2698.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. V.S.G. Chits Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Ratandeep Sportiff Pvt. Ltd.

Kanpur-208 001, the 12th December 2000

No. 560/(3)/LC/2700.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ratandeep Sportiff Pvt. Ltd.

unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Parnami Agro Ltd.

Kanpur-208 001, the 12th December 2000

No. 560/(3)/LC/2702.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Parnami Agro Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. S N. Rastogi Gla Works (Pvt.) Ltd.

Kanpur-208 001, the 12th December 2000

No. 560/(3)/LC/2704.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S.N. Rastogi Glass Works (Pvt.) Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
U.P.

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme under
Section 560 of the Companies Act, 1956
M/s. Rathsons Latex Pvt. Ltd.

Pune-411 004, the 12th December 2000

No. ROCP/44/F1S/560/6557 —Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Rathsons Latex Pvt. Ltd. has this day been struck off Register and the said company is dissolved.

K. V. GAUTAM
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme under
Section 560 of the Companies Act, 1956
M/s. Shrubhani Biosystems Pvt. Ltd.

Pune-411 004, the 12th December 2000

No. ROCP/73/41/6661.—Notice is hereby given pursuant to section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, M/s. Shrubhani Biosystems Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

K. V. GAUTAM
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme under Section 560
of the Companies Act, 1956 M/s. Indian Match Shave
Registry Pvt. Ltd.

Pune-411 004, the 12th December 2000

No. ROCP/560/42/74/6663.—Notice is hereby given pursuant to section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, M/s. Indian Match Shave Registry Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

K. V. GAUTAM
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme under Section 560
of the Companies Act, 1956 M/s. Siddheshwar
Diagnostics Pvt. Ltd.

Pune-411 004, the 12th December 2000

No. ROCP/560/43/75/6665.—Notice is hereby given pursuant to section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate

their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Siddheshwar Diagnostics Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

K. V. GAUTAM
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme under Section 560
of the Companies Act, 1956 M/s. Jitin Data Services
Pvt. Ltd.

Pune-411 004, the 12th December 2000

No. ROCP/560/44/76/6667.—Notice is hereby given pursuant to section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Jitin Data Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

K. V. GAUTAM
Registrar of Companies
Pune

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme under Section 560
of the Companies Act, 1956 M/s. Vajreswari
Ceramics Pvt. Ltd.

Pune-411 004, the 12th December 2000

No. ROCP/560/45/77/6668.—Notice is hereby given pursuant to section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Vajreswari Ceramics Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

K. V. GAUTAM
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme under Section 560
of the Companies Act, 1956 M/s. Gokarn Sugarcane
Process Pvt. Ltd.

Pune-411 004, the 12th December 2000

No. ROCP/560/46/78/6671.—Notice is hereby given pursuant to section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Gokarn Sugarcane Process Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

K. V. GAUTAM
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme under Section 560
of the Companies Act, 1956
M/s. Tharmari Agro Pvt. Ltd.

Pune-411 004, the 12th December 2000

No. ROCP/560/47/78/6673.—Notice is hereby given pursuant to section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Tharmari Agro Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

K. V. GAUTAM
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme under Section 560
of the Companies Act, 1956 M/s. Freedom Auto
Services Pvt. Ltd.

Panaji, the 15th December 2000

No. 24-2462/u.s. 560(5)/6002.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Freedom Auto Services

Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

M. AHMED KUNJU
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme under Section
560 of the Companies Act, 1956
M/s. Patel Appliances Ltd.

Panaji, the 19th December 2000

No. 24-01882/U/S560/1/6030.—Notice is hereby given pursuant to section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Patel Appliances Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

M. AHMED KUNJU
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme under Section 560
of the Companies Act, 1956 M/s. Jacana Tourist and
Conservation Centre Pvt. Ltd.

Panaji, the 19th December 2000

No. 24-01903/U/S560/1/6034.—Notice is hereby given pursuant to section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Jacana Tourist and Conservation Centre Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

M. AHMED KUNJU
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme under Section 560
of the Companies Act, 1956 M/s. Allied Intermediates &
Resins Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 24th November 2000

No. ROC/3457/STA/560/2000/6702.—Notice is hereby given pursuant to section 560 (3) of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Allied Intermediates & Resins Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D.A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Flora and Fauna Integrated Medicines Pvt. Ltd.

Cochin-682 011, the 04th December 2000

No. 09-5990/560(3)/Liq/8002/2000.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of thirty days from the date hereof the name of M/s. Flora and Fauna Integrated Medicines Private Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following companies

Cochin-682 011, the 19th December 2000

No. 560(3)/Liq/8296.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of thirty days from the date hereof the name of the following companies unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said companies will be dissolved.

Sl.No.	Reg. no.	Company Name	Sl.No.	Reg. no.	Company Name
01.	1976	Taliparamba Transport Pvt. Ltd.	17.	8526	Bhavana Engg. Consultants and Developers Pvt. Ltd.
02.	2534	Thara Electronics Pvt. Ltd.	18.	8872	Yaleswa Paper Conversions Pvt. Ltd.
03.	3562	Admiral Polymers (India) Pvt. Ltd.	19.	9123	Dreamcity Gardens Investment and Finance Company Ltd.
04.	4360	Narmada Dealers Emporium Pvt. Ltd.	20.	9333	Mossif Homes Pvt. Ltd.
05.	4388	Diza John Agencies Pvt. Ltd.	21.	9436	T T Tenements and Constructions Pvt. Ltd.
06.	4389	Diza Holdings Pvt. Ltd.	22.	9741	Rahul Drugs Pvt. Ltd.
07.	4765	Sasuk Trading Enterprises Pvt. Ltd.	23.	9872	Lalasree Business Credits Pvt. Ltd.
08.	4912	Hotel Panchami Pvt. Ltd.	24.	10159	Geosan Estates Pvt. Ltd.
09.	5630	A and P Trading Company Pvt. Ltd.	25.	10299	Ideal Crumb Factory Pvt. Ltd.
10.	6099	Jubilee Investments Pvt. Ltd.	26.	11177	Deeyar Business Credits Pvt. Ltd.
11.	6372	Winsome Exports India Pvt. Ltd.	27.	11387	Interstate Properties and Investments Pvt. Ltd.
12.	6391	Sahyachal Plantings Herbs and Flowers Ltd.	28.	11764	New Surya Garden Finance Pvt. Ltd.
13.	6876	Surapuri Investments Pvt. Ltd.			
14.	6927	Waterkolli Estates Pvt. Ltd.			
15.	7197	Parayil sons Pvt. Ltd.			
16.	8248	Saar Spices Pvt. Ltd.			

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala

